

November 18, 2020

Manager –Listing BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers

Dalal Street,

Mumbai -400 001 Scrip Code: 540132 The Listing Department
The Calcutta Stock Exchange Limited
7, Lyons Range

Kolkata-700001

Sub: Newspaper Advertisement confirming dispatch of Notice of the 36th Annual General Meeting (AGM)

Ref: Regulation 47 and 30 of the SEBI(LODR) Regulations, 2015

Dear Sir/ Ma'am,

In continuation of our letter dated 17th November, 2020, please find enclosed newspaper clippings listed here under, confirming the publication of information regarding completion of dispatch of Notice and Annual Report containing therein Proxy Form, Attendance slip to the shareholder of the Company along with information of Book Closure for the purpose of 36th Annual General Meeting of the Company:

- a) English Language National Daily Newspaper: "Financial Express" dated November 18, 2020.
- b) Regional Language National Daily Newspaper: "Viraat Vaibhav" dated November 18, 2020.

We request you to kindly take this information on record.

Thanking You

Yours sincerely,

For SABRIMALA INDUSTRIES INDIA LIMITED
FOR SABRIMALA INDUSTRIES INDIA LIMITED

Meeny Sharma

Director/Auth. Signatory

Company Secretary & Compliance Officer.

Encl: Newspaper Clipping

SABRIMALA INDUSTRIES INDIA LIMITED

FORM NO. INC-26 [Pursuant to rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014] Advertisment to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one state to another Before the Central Government THE REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION, NEW DELHI

In the Matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rule, 2014 AND In the matter of EPS Investments Pvt Ltd having its Registered Office at : Plot No- B-45, KH. No- 42/12, Amrita Puri, Ranhola

Nangloi, New Delhi- 110041 Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make an application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking approval of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the Special Resolution passed at the Extra ordinary

general meeting held on 10/11/2020 to enable the company to change its Registered office from 'the National Capital Territory of Delhi' to "the State of Uttar Pradesh". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA 21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition t the Regional Director at the address the Regional Director, Northern Region, B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within 14 (Fourteen) days

For and on behalf of **EPS Investments Pvt Ltd** (Prashant Yaday) Place: New Delhi Director Date: 17.11.2020 DIN: 07930729

of the date of publication of this notice with a

copy to the applicant company at its Registered Office at the address mentioned above.

FORM NO. INC-26 Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014) Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one state to another Before the Central Government (Regional Director), Northern Region, B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi – 110003 in the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

Greenbucks Comtrade Private Limited (CIN: U97000UP2007PTC045139) having its registered office at S - 12A, Plot No. 3, Aditya Mega City Vaibhay Khand, Indirapuram, Ghaziabad UP-201014

the Company proposes to make application to the Regional Director, Northern Region, New Delhi (Central Government) under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra-ordinary General Meeting held on Thursday, the 12 "day of November, 2020 to enable the Company to change its Registered Office from the "State of Uttar Pradesh" to the "National Capital Territory Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office

of the Company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director at the address Northern Region, B-2 Wing, 2"Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi - 110003 within fourteen (14) days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant Company at its registered office at the

SATVEER SINGH SABHARWAL Date: 17.11.2020 Director Place: Ghaziabad DIN: 01282263 Address: 76, KOHAT ENCLAVE, PITAM PURA NORTH WEST DELHI, DELHI - 110034

क्षेक ओक बहीदा Bank of Baroda d Branchist III frieder ROSAR BRANCH, VIJAYA BHAWAN, 17 BARAKHAI NEW DELHI 110001 Phone Numbers- 011233102308,9, 23353242

of National English daily News Paper Financial Express and Delhi NCR Edition of Hindi daily News Paper Jansatta by ROSAR Branch Bank of Baroda. Please note that in point 17 account of M/s True fab engineers Pvt Ltd Total dues should be read as "Ks. 73,36,134 as on 15-11-2020 with further interest and instead of Rs charges thereon" 2,99,17,226.16

the sale notice sent to Smt Shalini Anand W/o Sh. Pradeep Anand and to Sh. Pradeep Anand s/o Late Sh. Malik Balram of M/s True fab engineers Pvt Ltd vide letter number BR:ROSARB:2020-21/474 dated 02.11.2020 and BR:ROSARB:2020-21/475 dated 02.11.2020 by authorized officer Dr. Ami Gupta as "Rs. 73,36,134 as on 15-11-2020 with further interest and charges thereon instead of Rs. 2.99.17.226.16

Date: 18.11.2020 **Authorised Officer** Place: New Delhi Bank of Baroda

Form No. INC-26 [Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 20141 Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of

the company from one state to another. Before the Regional Director Northern Region In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

In the matter of Eptron Solutions Private Limited having its registered office at 240/18 Shanti Nagar, Nr HDFC Atm Gurugram Haryana- 122001,Petitioner

that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra ordinary general meeting held on 09/10/2020 to enable the company to change its Registered Office from 'State of Haryana" to "State of Uttar Pradesh". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the regist-

copy of the applicant company at its registered office at the address mentioned below: 240/18 Shanti Nagar, Nr HDFC ATM

Gurugram Haryana- 122001 For and on behalf of the Applicant

Sd/-Date: - 18/11/2020 Akhilesh Kumar Dwivedi Place: - Haryana (Director)

Liquidator: Atul Kumar Kansal

Liquidator Address: SCO-61, 3rd Floor, Above Kotak Mahindra Bank Limited, Old Judicial Complex, Civil Lines, Sector-15, Gurgaon - 122001 Email: liquidator.seitz@gmail.com | Contact No: 9899027510 E-Auction

Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 Date and Time of Auction: 28.11.2020 from 11.00 a.m. to 1.00 p.m. (With unlimited extension of 5 minutes each)

https://ncltauction.auctiontiger.net. Reserve Price Incremental & EMD (Rs) Value (Rs.) Inventories of raw material, finished goods and packing ₹ 1.85,625/-₹ 10,000/material (cleaning and laundry chemicals) lying at

Godown No.6, Raolal Singh Market, Opp. Munjal Showa, ₹ 10.000/-Sarhaul, Sector-18, Gurugram-122001 and 73, Ground Floor, New Manglapuri, New Delhi - 110030 Terms and Condition of the E-auction are as under:

E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER

THERE IS BASIS" through approved service provider M/s E-procurement Technologies Limited (Auction Tiger). . The Complete E-Auction process document containing details of the Assets, online e-

auction Bid Form, Declaration and Undertaking Form, General Terms and Conditions of online auction sale are available on website https://ncltauction.auctiontiger.net Contact: Mr. Ramprasad Sharma at +91-6351896834/ 079 61200 559/531/554/594 E-mail:ramprasad@auctiontiger.net/nclt@auctiontiger.net/support@auctiontiger.net

Date: 17.11.2020 Place: Gurugram

Rea No: IBBI/IPA-001/IP-P00035/2016-2017/10088

Atul Kumar Kansal

HIRA AUTOMOBILES LIMITED

Regd. Office: # 598, Sector 18-B, Chandigarh | CIN:- L50101CH1989PLC009500 Tel:0172-2743462 | Email : hiraaccounts@gmail.com | www.hiraautomobiles.com Extract of Un-Audited Standalone Financial Results for the guarter and Six

N.	Particulars	30.09,2020 unaudited	ending 30.09.2020 unaudited	30.09.2019 unaudited
1	Total Income from operations	4573.19	6111.36	7284.35
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	6.38	-118.66	-6.16
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Extraordinary items and/or Extraordinary items)	6.38	-118.66	-6.16
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Extraordinary items and/or Extraordinary items)	6.38	-118.66	-6.16
5	Equity Share Capital	275.34	275.34	275.34
6	Reserves(excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of Previous Year) Earnings Per Share before	873.31	873.31	873.31
	extraordinary items)(of Rs 10/-each) Basic:	0.23	-4.31	-0.22

Note: The above is an extract of the detailed format of quarterly Financial Results for quarter and six months ended 30thSeptember, 2020filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of above Results is available on the website of Company at www.hiraautomobiles.com and BSE Limited at www.bseindia.com. For Hira Automobiles Ltd.

Place: Chandigarh Date: 12.11.2020

CORAL NEWSPRINTS LTD. Read. Office: A-138, 1st Floor, Vikas

Marg, Shakarpur, Delhi-110092

CIN NO: L22219DL1992PLC048398

E-mail: cnpl_5000@rediffmail.com

Website: www.coralnewsprintslimited.com

Tel.: 22010998 NOTICE Pursuant to Regulation 29(1) (a) and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors

of the Company will be held on Tuesday, 24th November, 2020 to consider and take on records the Un-audited Financial results of the Company for the period ended 30.09.2020. This notice shall also be available on the

website of the company i.e. www.coralnewsprintslimited.com and website of Bombay Stock Exchange at www.bseindia.com

Place : Delhi

Dated: 17.11.2020

By order of the Board

[Regulation 31(2) read with Regulation 12(3) of Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016) FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF KASHYAP MOTORS INDIA PRIVATE LIMITED (Under Liquidation)

PUBLIC ANNOUNCEMENT

Pursuant to Regulation 31 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016, a Public Announcement is hereby made to all the Stakeholders of the Corporate Debtor that the revised list of stakeholders of Kashyap Motors India Private Limited (Corporate Debtor) has been filed with the Hon'ble National Company Law Tribunal (NCLT), Principal Bench at New Delhi and the same has been taken on record vide Hon'ble NCLT order dated 10.11.2020.

The List of Stakeholders, as modified from time to time shall be available for inspection by the persons who submitted proofs of claim and by members, partners, directors and guarantors of the corporate debtor at the office address of the undersigned located at 25, DDA LSC, Block M1, Vikaspuri, New Delhi-110018.

Jatin Madan Liquidator Date: 18.11.2020

PUBLIC ANNOUNCEMENT

Pursuant to Regulation 31 read with Regulation 12(3) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016 In the matter of

GULATI RETAIL INDIA LIMITED- IN LIQUIDATION (CIN: U52599DL2006PLC156654) All concerned are hereby informed that the undersigned acting as Liquidator in the matter of Gulati Retail

India Limited-in Liquidation has filed List of Stakeholders electronically on 15.11.2020 with the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi Bench at New Delhi pursuant to the provisions of Regulation 31 (2) read with Regulation 12 (3)of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process).

The List of Stakeholders showing complete details of amounts of claims admitted by the Liquidator, extent upto which claims are secured/unsecured will be available for inspection at Liquidator's office. The Stakeholders are further notified that any modification of entries in the List of Stakeholders, as filed with the Hon'ble National Company Law Tribunal, can be made only by filing an application with the Hon/ble National Company Law Tribunal.

Arun Chadha Liquidator of Gulati Retail India Limited IP Registration Number: IBBI/IPA-001/IP-P00165/2017-18/10334 727, Brahmpuri, Meerut-250002, Uttar Pradesh Email: Chadharun@yahoo.com



The Jammu And Kashmir Bank Information Security Department Corporate Headquarters, M.A.Road

Fire Wall Rule Analyzer

the minimum requirements can be downloaded from and BIDs can be submitted on the Banks' e-Tendering Service Provider Portal https://eauction.auctiontiger.net w.e.f November 18, 2020 16.00 Hrs. Tender Document can also be downloaded from Bank's Official Website www.jkbank.com. Last date for submission of Bids is December 10, 2020, 17.00 Hrs. e-RFP Ref. No.: JKB/tS/FireWall/2020-168 Dated: 13-11-2020

Regd. Off.: 94/4, UG-F, UG-9 VILLAGE PATPARGANJ, DELHI-110091 E-mail id: helpdesk@mflindia.in, Website: www.mflindia.com CIN: L63040DL1981PLC012730, Ph: 011-32076767 EXTRACT OF THE UNAUDITED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2020

Particulars	Quarter Ended	Half Year Ended	Quarter Ended
Particulars	September 30, 2020	September 30, 2020	March 31, 2020
Total income from operations	22021775	4,54,20,734	34,58,91,231
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	55,466	3,49,522	32,45,73,787
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	55,466	3,49,522	32,45,73,787
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	55,466	3,49,522	32,45,73,787
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	55,466	3,49,522	32,45,73,787
Equity Share Capital	36,02,92,000	36,02,92,000	36,02,92,000
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	(5688142)	(5688142)	(3968110)
Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic (Rs.) 2. Diluted (Rs.)	0.00	0.00	0.90

Note:

Folio

No.

404316

 The above Audited Financial Results reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their Meeting held on May 30, 2019. The above is an extract of the detailed format of Quarter/ year ended Financial Results

Filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and year ended financial results are availableon the website of the Stock Exchange i.e. www.bseindia.com and of the Company i.e. www.aceedutrend.in. For MFL India Limited

Sd/-**Anil Thukral**

Distinctive Nos.

61961860-61961874

Shares

(Director) Place: New Delhi DIN: 01168540 Date: 02.11.2020

Regd. Office: 28, Najafgarh Road, Moti Nagar Industrial Area, New Delhi-110015 Phone No. (011) 45021854, 45021812, Fax No. (011) 25928118, 45021982 Email Id. for Investors: investorcare@nalwasons.com, Website: www.nalwasons.com

Notice is hereby given that the following share certificate(s) are reported to have been lost The Company will proceed to issue duplicate certificate(s) in respect of these shares, if no valid objection is received within 7 days from the date of publication of this notice. Equity Shares of Jindal Strips Ltd. (Now Nalwa Sons Investments Ltd.

PUBLIC NOTICE - LOSS OF SHARE CERTIFICATES

(Issued after 16.9.2003): No. of

Name of shareholder(s)

Devi Lal Tailor Rakhecha

Date: November 17, 2020

Place: Hisar

404317	Kishore Kumar Reknecha	602204	61961875-61961889	15
	Old Equity Shares of Na (Issued after 11.7.2			
Folio No.	Name of shareholder(s)	Certificate No(s).	Distinctive Nos.	No. of Shares
466658	Ashok Tyagi	516275	53197798-53197851	54

48713268-48713327 60 102908 Shanti Sarup Jindal 509962 413667 43426870-43426938 7452 Pramod Kumar Agarwal

Old Eq	uity Shares of Jindal Strips Ltd (Issued upto			nts Ltd.)
Folio No.	Name of shareholder(s)	Certificate No. (s).	Distinctive Nos.	No. of Shares
42617	Koushilya Ahuja; Girdharilal Ahuja	81454	8964231-8964252	22

7452 Pramod Kumar Agarwal 8218 | 2523501-2523600 | 22800 4910301-4910400 100 for NALWA SONS INVESTMENTS LIMITED

(Ajay Mittal)

SABRIMALA INDUSTRIES INDIA LIMITED (Formerly Known as Sabrimala Leasing and Holdings Ltd.) CIN- L741100L1984PL0018467

Regd. Office: - 205, Aggarwal Corporate Heights, Netaji Subhash Place, Pitampera, Deihi-110034 Phone No- 011-47479723. Email- cs@sabrimala.co.in. Website- www.sabrimala.co.in. NOTICE OF 3614 ANNUAL GENERAL MEETING, RENOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE A. NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

be held on Tuesday, December 15, 2020 at 11:00 a.m at the registered office of the company situated at 205, Aggarwal Corporate Heights, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi-110034. Physical copies of the Notice of the Meeting including the attendance slip and the Proxy form setting out the ordinary businesses to be transacted at the Meeting together with the Auditor Financial Statements and Consolidated Audited Financial Statements for the year ended 31: March, 2020, Auditor's Report and Director's Report thereon have been sent to the members who have not registered their email id with the Company's Registrars & Transfer Agents to

Members are hereby informed that the Notice of the Meeting and the aforesaid documents are available at the Company's website (www.sabrimala.co.in) and copies of the said documents are also available for inspection at the registered office of the company on all working days, during business hours up to the date of the Meeting. A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a growy to attend and vote on a poll-instead of himself and the Proxy need not be a member of the Company. The instrument appointing Proxy to be valid should be deposited at the registered office of the Company not later than 48 hours before the commencement of the peneral meeting.

B. E-VOTING

Rlace: New Delhi

amended and Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 2015, the Company is providing its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the said meeting through remote e-voting apar from the usual mode of voting at the Meeting through ballot pagers. The Company has engaged the services of Central Depository Services Limited ("CDSL") as the agency to provide e-voting facility. The communication relating to e-voting inter alia containing User ID and password along with a copy of the Notice convening the Meeting, Attendance Slip and Proxy Form has been dispatched/emailed, as the case may be, to all the Members. This communication and the Notice of the Meeting are available on the website of the Company at www.sabrimala.co.in and on the vebsite of CDSL at www.cdslindia.com. The remote e-voting facility shall commence on Friday 11" December, 2020 from 09:00 a.m (IST) and ends on Monday 14" December, 2020 a 05:00 pm (IST). The remote e-voting will not be allowed beyond the said date and time. person whose name appears in the register of Members/ Beneficial Owners as on the Cut off Date i.e. Tuesday 8th December, 2020 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the Meeting. Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as of the Cut off Date i.e Tuesday 8th December, 2020, may obtain the User ID and password by sending a request at helpdesk evoting@cdslindia.com. The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the

rting which is available on the Company's Website and CDSL's website. If the member is ready registered with CDSI, for e-voting then he can use his existing user ID and password for casting the vote through remote e-voting. The members who cast their vote through remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again at the meeting. Any iber, who is entitled to vote but has not exercised his/her right to vote by Remote e-voting, may vote at the meeting through physical ballot for all businesses specified in the Notice, Ballot papers has been mailed to you with Notice of the Meeting and will also be provided to the member at the Venue of the Meeting to cast their votes. C. BOOK CLOSURE

Monday, 14th December, 2020 (both days inclusive) for the purpose of ensuing Annual General In case of any queries/ grievances relating to voting by electronic means, the Members' Beneficial Owners may contact at the below mentioned address: Mr. Mehbook Lakhani, Assistant Manager Central Depository Services (India) Limited 17th Floor, P. J. Towers, Dalai Street Fort, Mumbai-

400001, Phone- 18002005533, Email: helpdesk evoting@cdslindia.com For Sabrimala Industries India Limited



SHORT TERM e-TENDER NOTICE

Online e-tenders are invited from Original Manufacturers/Authorized dealer (as per details given in tender documents) for Supply of Bagasse Bailing Machine to Munderwa and Pipraich units of U.P. State Sugar Corporation Ltd.. The e-tender documents with detailed specifications. terms and conditions etc., can be downloaded from e-tender portal http://etender.up.nic.in & Sugar Corporation's website www.upsugcorp.com from 17.11.2020. The Sugar Corporation reserves the right to cancel any or all bids/annul

e-bidding process without assigning any reason to and decision of Corporation will be final & binding. MANAGING DIRECTOR

REGD. OFFICE: SCO-14, SECTOR-7-C, MADHYA MARG, CHANDIGARH-160019 Tel.: 0172-5021555, 5021666, Fax: 0172-5021495 **E-mail**: info@stylam.com, **Web**: http//www.stylam.com

and the registered Holders thereof claimants thereto have requested to the Company for issuance of Duplicate Share Certificate(s) in lieu of lost share certificates(s):

Sr. No.	Folio No.	Name of Shareholder	S/C Nos.	Distino	tive No.	No. of Shares
INO.		Shareholder		From	То	Silales
1	0003947	Gulab Singh Goel	24924 -24925	4746901	4747100	200
Any	person(s) w	ho has/have and cla	im(s) in respect	of the afores	aid Share Ce	rtificate(s)
shou	Id lodge the	claim in writing with	us at the Compa	any's address	within 15 day	s from the
publi	cation hereo	f. The Company will no	ot thereafter be li	able to enterta	in any claim in	respect of

ect of the said Share Certificate(s) and shall proceed to issue the Duplicate Share Certificate(s) pursuance to Rule 4(3) of the Companies (Issue of Share Certificate) Rule 1960

Place: Chandigarh (Company Secretary) Date: 17-11-2020

Jindal Stainless (Hisar) Limited CIN: L27205HR2013PLC049963

Phone No.: (01662) 222471-83, Fax No.: (01662) 220499

Notice is hereby given that the following share certificate(s) are reported to have been lost. The company will proceed to issue duplicate certificate(s) in respect of these shares, if no valid objection is received within 7 days from the date of

Name of Shareholder(s) Certificate Distinctive Share(s) No(s) Number(s)

Omkara Assets Reconstruction Private Limited



Pvt Ltd. (OARPL) a Company incorporated under the provisions of the Companies Act. 1956, and duly registered with Reserve Bank of India (RBI) as an Asset Reconstruction Company under Section 3 of the Securitisation And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) ("The SARFAESI Act, 2002"); having CIN No U67100TZ2014PTC020363 and its registered office at 9, M.P Nagar, 1st Street, Kongu Nagar Extn, Tirupur - 641607 and Corporate office at C/515, Kanakia Zillion, Junction of LBS Road and CST Road BKC Annexe Near Equinox, Kurla (West), Mumbai - 400070, acting in its capacity as a Trustee of "Omkara PS 04/2020-21 Trust" has acquired all rights. titles & interest of ECL Finance Limited in the financial assets of Mr. Mayoor Kumar & Mrs. Manju Aggarwal in toto originated by ECL Finance Limited under section 5 of Securitisation and Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of Security Interest Act, 2002 vide Assignment Agreement dated 15.06.2020.

And whereas, Authorised Officer of the OARPL, under the Securitisation and Reconstruction till the date of payment within 60 days from the date of the notice.

Limitedandhas becomes entitled to recover entire outstanding dues and enforce the security. The Borrower & Co-borrowers having failed to repay the amount, as per notice dated **26.08.2020** under section 13(2) SARFAESI Act. The Authorized Officer of Omkara Assets Reconstruction Interest (Enforcement) rules, 2002 on this 12th day of November of the year 2020.

Annexe, Near Equinox, Kurla (West), Mumbai - 400070 for an amount of Rs.88,91,443/-(Rupees Eighty-Eight Lakhs Ninety-One Thousand Four Hundred Forty-Three Only) as on 26.08.2020 plus accrued interest/unrealized interest w.e.f. 27.08.2020 at the contractual rate(s) together with incidental expenses, costs, charges, etc.

Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. Company in the above account & whose possession has taken given hereunder:

Sikanderpur Ghosi, Main Mehrauli Road, Gurgaon - 122002 Along with construction thereon present and future both. Boundaries: North: Other Property, East: Other Property, South: Other Property, West: Passage. For, Omkara Assets Reconstruction Private Limited

(Acting in its capacity as a Trustee of Omkara PS 04/2020-21 Trust) (Ankur Rastogi) Chief Manager & Authorized Officer Place: Delhi ankur.rastogi@omkaraarc.com, Mobile: 82189 04686. Dated: 12 November 2020



The Indian Express.

—JOURNALISM OF COURAGE —



M/S STYLAM INDUSTRIES LIMITED

CIN: L20211CH1991PLC011732

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES

Notice is hereby given that the following share certificates have been reported lost/misplaced o. of

Sr. No.		Name of Shareholder	S/C Nos.	Distino	tive No.	No Sha
		0.1.0.10.10.0		From	То	0
1	0003947	Gulab Singh Goel			4747100	20
Any	person(s) w	ho has/have and cla	im(s) in respect	of the afores	aid Share Ce	rtifica
	•	claim in writing with		•	•	
nuhli	ication harao	f The Company will n	of thereatter he li	ahla ta antarta	in any claim in	racha

For Stylam Industries Limited

Regd. Office: O.P. Jindal Marg, Hisar - 125 005 (Haryana)

Email Id.: investorcare.jshl@jindalstainless.com, Website: www.jshlstainless.co **PUBLIC NOTICE - LOSS OF SHARE CERTIFICATES**

publication of this notice. EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS.2 PER SHARE OF THE COMPANY: No. of

2847443-2847637 195 416607 Saroj Mittal 705072 for Jindal Stainless (Hisar) Limited

(Bhartendu Harit) Date: November 17, 2020 Company Secretary Place: Hisar



Corporate Office: C/515, Kanakia Zillion, Junction of LBS Road and CST Road, BKC Annexe, Near Equinox, Kalina, Kurla (West), Mumbai-400070.

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of Omkara Assets Reconstruction

of Financial Asset and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice dated 26.08.2020 calling upon the Borrower Mr. Mayoor Kumar & Mrs. Manju Aggarwal, to repay the amount mentioned in the notice aggregating to Rs.88,91,443/- (Rupees Eighty-Eight Lakhs Ninety-One Thousand Four Hundred Forty-Three Only) as on 26.08.2020 plus accrued interest/unrealized interest w.e.f. 27.08.2020 at the contractual rate(s) together with incidental expenses, costs, charges, etc. Pursuant to the said assignment of debt OARPL has stepped into the shoes of ECL Finance

Private Limited, duly appointment under sub section (12) of section 13 of the SARFAESI ACT 2002 has taken Possession of the property as described herein below in exercise of powers conferred upon him under sub-section (4) of Section 13 of the Act, read with rule 8 of the Security The Borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with such property will be subject to the charge of the Omkara Assets Reconstruction Pvt Ltd acting as Trustee of Omkara PS 04 / 2020-21 Trust having corporate office at C/515, Kanakia Zillion, Junction of LBS Road and CST Road BKC

The borrower's & Co-borrowers' attention is invited to the provisions of sub-Section 8 of The details of the assets / properties hypothecated / assigned / charged / mortgaged to our

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY All that piece and parcel of Unit No. TF-04(A), Third Floor, JMD Regent Plaza, Village

♦ The Indian EXPRESS For the Indian Intelligent.

Form No. INC-26

[Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules 2014) Advertisement to be in Newspaper for the change in Registered Office of the Company from one State to Another

Before the Central Government, Northern Region Bench, Delhi In the matter of sub-section 4 of section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (af of sub-section (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules 2014

In the matter of M/s New Era Jewelry Private Limited having its Registered Office at 107, Bhagat Singh Market, Gole Market, New Delhi, petitioner Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make the application to the

alteration of Memorandum of Association of the Company in terms of Special Resolution passed at Extra-ordinary General Meeting held on 10th November, 2020 to enable the Company to change its Registered Office from "State of Delhi" to "State of Rajasthan". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change, may deliver either on MCA portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be deliver or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and ground

of opposition to the Regional Director at the Address B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran BHAWAN, CGO Complex New Delhi-110003' within 14 days of date of publication of this notice with a copy to the appticant company at its registered office at the address mentioned below: ADDRESS OF REGISTERED OFFICE: OFFICE AT 107, BHAGAT SINGH MARKET, GOLE MARKET, **NEW DELHI**

Date: 18.11.2020 Place : Delhi

DIN: 05230283

Regd. Office: O.P. Jindal Marg, Hisar-125 005 (Haryana) Phone No. (01662) 222471-83, Fax No. (01662) 220499 Email Id. for investors: investorcare@jindalstainless.com Website: www.islstainless.com

valid objection is received within 7 days from the date of publication of this notice. EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS.2/- EACH OF THE COMPANY: Folio Certificate Distinctive Name of shareholder

OLD EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS.10 PER SHARE OF THE COMPANY

|416607 | Saroj Mittal 22022810-22022824

Company Secretary Place: New Delhi AL-NAJIB MILLI MUTUAL BENEFITS NIDHI LIMITED

NOTICE TO MEMBERS Notice for 30th Annual General Meeting Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting of AL-NAJIB MILLI MUTUAL BENEFITS NIDHI LTD. will be held at Najibabad Pvt. ITI, Vill. Harswara, Opposite Qasmia Inter-College, Najibabad, Distt. Bijnor, U.P. on Friday, the 11th December, 2020 at 11:00 A.M. to transact with or without modifications, as may be

Date: November 17, 2020

Financial Statements of the Company for the financial year ended 31st March: 2020 and the Reports of the Board of Directors and Auditors 2. To declare Dividend on Equity Shares for the financial year ended on 31st March, 2020.

. To receive, consider and adopt the Audited

3. To appoint a Director in place of Mr. Abdul Wahid Khan, Director (DIN- 06964582), who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment. 4. To appoint a Director in place of Mr. Mohammad Faroog, Director (DIN-06964590), who retires by rotation and being eligible, offers

himself for re-appointment. 5. To ratify the appointment of M/s Saurabh Sakshi & Associates, Chartered Accountants, Delhi as Statutory Auditors of the Company who have been appointed for continuous tenure of five years as Statutory Auditors of the Company from 26th Annual General Meeting. To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an Ordinary Resolution: -

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 139 and all other applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with Rule 3(7) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended from time to time, the Company hereby ratifies the appointment of M/s Saurabh Sakshi & Associates, Chartered Accountants, B-105, Preet Vihar, Delhi-110092 (Statutory Auditor appointed from 26th Annual General Meeting to 31st Annual General Meeting), as the Statutory Auditors of the Company to hold office from the conclusion of this meeting until the conclusion of the 31st Annual General Meeting of the company on such remuneration as may be mutually agreed upon by the Board of Directors

. RE-APPOINTMENT OF MR. IZAFARUL HAQUE ZAKI (DIN-00102647) AS MANAGING DIRECTOR FOR A FURTHER PERIOD OF 5 YEARS W.E.F.17/02/2021 TO 16/02/2026, WHO IS LIABLE TO RETIRE ON DATED 16/02/2021. To consider, and if thought fit, to pass with or

and Auditors.

indianexpress.com

without modification(s), the following resolution as a SPECIAL RESOLUTION. "RESOLVED THAT pursuant to provisions of Sections 149, 152, 196, 197 and 203 read with Schedule V (as may be and amended from time to time) and all other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Companies (Appointment and Remuneration of Managerial of Personnel) Rules, 2014 the approval of the nembers of the company be and is hereby accorded for the re-appointment of Mr. Izafarul Haque Zaki (DIN-00102647) as Managing Director of the Company for a further period of five years w.e.f.17/02/2021 to 16/02/2026, who is liable to retire on 16/02/2021 on such remuneration and terms and conditions as set out in the explanatory statement annexed, with liberty to the Board of Directors to determine, alter and

appointment and/or remuneration" "RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things, as in its absolute discretion, it may consider, necessary, expedient or desirable in order to give effect to this resolution."

vary the terms and conditions of the said re-

. APPOINTMENT OF MR. NAIM AHMAD (DIN: 08946498) AS AN INDEPENDENT DIRECTOR To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an Ordinary Resolution: -"RESOLVED THAT pursuant to provisions of

Sections 149, 150, 152 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force) read with Schedule IV of the Act, Mr. Naim Ahmad (DIN: 08946498),, who was appointed as an Additional Director designated as Independent Director of the Company by the Board of Directors with effect from 04.11.2020 in terms of section 161(1) of the Act and whose term of office expires at this Annual General Meeting and has submitted a declaration that he meets the criteria for independence as provided in section 149(6) of the Act and is hereby appointed as an Independent Director of the Company who shall not be liable to retire by rotation and hold office for five consecutive years for a term upto 03.11.2025." 8.APPOINTMENT OF MR AFAKURRAHMAN

(DIN: 07267209) AS AN INDEPENDENT DIRECTOR OF THE COMPANY. To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution

as an Ordinary Resolution: -"RESOLVED THAT pursuant to provisions of Sections 149, 150, 152 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force) read with Schedule IV of the Act, Mr. Afakurrahman (DIN-07267209), who was appointed as an Additional Director designated as Independent Director of the Company by the Board of Directors with effect from 04.11.2020 in terms of section 161(1) of the Act and whose term of office expires at this Annual General Meeting and has submitted a declaration that he meets the criteria for independence as provided in section 149(6) of the Act and is hereby appointed as an Independent Director of the Company who shall not be liable to retire by rotation and hold office for five consecutive years for a term upto 03, 11, 2025." By order of the Board

For AL-NAJIB MILLI MUTUAL BENEFITS NIDHILTO. Sd/-IZFARUL HAQUE ZAKI (Managing Director) DIN No.00102647

Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013, seeking confirmation of

For and on behalf of applicant Asheesh Tholia Director



PUBLIC NOTICE - LOSS OF SHARE CERTIFICATES Notice is hereby given that the following share certificate(s) are reported to have been lost The company will proceed to issue duplicate certificate(s) in respect of these shares, if no

No. Shares Numbers 416607 Saroj Mittal 501084 75873476-75873670

	(Issued	prior to 9.3.20	04):	
Folio No.	Name of shareholder(s)	Certificate No(s).	Distinctive Numbers	No. of Shares
466658	Ashok Tyagi	225615	22103348-22103362	15
MARROT	Cassi Mittal	220274	22022040 22022024	46

for Jindal Stainless Limited (Navneet Raghuvanshi)

CIN No.U65991UP1990PLC011827 Regd. office: Majeed Ganj, Najibabad, Uttar Pradesh 246763, India Ph.:01341-220206, 221049 Fax: 01341-221050, Email: alnbd@rediffmail.com Add: Mohalla Qazian, Jalalabad, Najibabad

Distt. Bijnor, U.P.-246763 Place: Najibabad

Date: 17th November, 2020.

the commencement of the meeting.

NOTES: . A Member entitled to attend and Vote at the AGM is entitled to appoint proxy to attend and vote, instead of him/her and the proxy need not be a member. The instrument of proxy, in order to be effective, must be duly filled, signed stamped and should be submitted to the Registered permissible, the following business. Office of the Company, not later than 48 hours before ORDINARY BUSINESS: -

> closed from 2nd December, 2020 to 11th December, 2020. (Both days inclusive) Unclaimed dividend for the financial year ended 31st March, 2013 and the corresponding Ordinary Shares of the Company in respect of which dividend entitlements remain unclaimed for seven consecutive years will be due for transfer to the Investor Education and Protection Fund of the Central Government on 29th October, 2020 pursuant to the provisions of Section 124 of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority

2. The Register of Members shall remain

corresponding shares are available on the "IEPF Portal of MCA. In respect of the said dividend and shares, it will not be possible to entertain any claim by company after 29th October, 2020. Audited Financial Statements along with Auditor's Report and Director's Report have also been affixed

(Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules

2016. Details of such unclaimed dividend and

on NOTICE BOARD in each Branch of the Company and attendance slips and Proxy Forms are also available there. 5. Due to COVID Pandemic, Local Administration has given permission to hold AGM with a maximum gathering of 100 participants only. Therefore, it is mandatory for members or proxy thereof who are interested to attend AGM to register their names with the Incharge Head Office of the Company at least 24 hours before meeting. Moreover, in pursuant to guidelines issued by Administration and Health Deptt. all participants are requested to strictly adhere the rules of Social Distancing and Mask

since it is necessity as well as very important in the interest of all in prevailing circumstances. By order of the Board For AL-NAJIB MILLI MUTUAL BENEFITS NIDHILTO. Sd/- IZFARUL HAQUE ZAKI

(Managing Director) DIN No. 00102647

Add: Mohalla Qazian, Jalalabad, Najibabad, Distt. Bijnor, U.P.-246763, Place: Najibabad Date: 17th November, 2020. EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO SECTION 102 OF THE COMPANIES ACT, 2013 ITEM NO. 6 Mr. Izfarul Haque Zaki is a well educated and

experienced Managing Director of the

Company. Company is being benefitted by his services for last 30 years. Therefore it is desirable to have his valuable advice and service by retaining him further as a Managing Director of the Company, so it is necessary that the special resolution set out in the notice be None of the Directors or KMPs of the Company

or their Relatives except Mr. Izfarul Haque Zaki and Ghayyorul Hag Bilal is concerned or

interested in the aforesaid special resolution. The Board recommends the Special Resolution set forth in Item No. 6 for approval of the Members Mr. Naim Ahmad (DIN: 08946498) was appointed by the Board as an Additional Director on the Board of your Company pursuant to Section 161(1) of the Companies Act, 2013 on 04.11.2020. A notice U/s 160(1) of the Companies Act. 2013 has been

received from a member proposing the candidature

of Mr. Naim Ahmad (DIN: 08946498) as Director of

the Company. Mr. Naim Ahmad (DIN: 08946498) is 34 years old and is Graduate. Mr. Naim Ahmad (DIN: other company. The Board considers that appointment of Mr. Naim Ahmad as member of the Board will be immense benefit of the Company. In the opinion of the Board, Mr. Naim Ahmad fulfils the conditions specified in the Act and the rules made thereunder to be appointed as an Independent Director and his appointment is independent of Management. If is proposed to appoint Mr. Naim Ahmad as an Independent Director U/s 149 of the Act, not liable to retire by rotation for a term of five year. None of the Directors or KMPs of the Company or their Relatives except Mr. Naim Ahmad is concerned or interested in the resolution.

set out at item No.7 of for your consideration and approval. Mr. Afakurrahman was appointed by the Board as an Additional Director on the Board of your Company pursuant to Section 161(1) of the Companies Act, 2013 on 04.11.2020: A notice

The Board of Directors recommends resolution

U/s 160(1) of the Companies Act, 2013 has

been received from a member proposing the

candidature of Mr. Afakurrahman as Director of

the Company. Mr. Afakurrahman is 70 years old and is Graduate. Mr. Afakurrahman does not hold directorship in any other company. The Board considers that appointment of Mr. Afakumahman as member of the Board will be immense benefit of the Company. In the opinion of the Board, Mr. Afakurrahman fulfils the conditions specified in the Act and the rules made thereunder to be appointed as an Independent Director and his appointment is independent of Management, It is proposed to appoint Mr. Afakurrahman as an Independent Director U/s 149 of the Act, not liable to retire by

The Board of Directors recommends resolution set out at item No.8 of for your consideration and approval. By order of the Board For AL-NAJIB MILLI MUTUAL BENEFITS

concerned or interested in the resolution.

None of the Directors or KMPs of the Company

or their Relatives except Mr. Afakurrahman is

NIDHILTD Sd/-IZFARUL HAQUE ZAKI (Managing Director) DIN No. 00102647 Add: Mohalla Qazian, Jalalabad, Nailbabad, Distt. Bijnor, U.P.-246763, Place: Najibabad

rotation for a term of five year.

Date: 17th November, 2020

financialexp

In the matter of

address mentioned below:

For and on behalf of
GREENBUCKS COMTRADE PRIVATE LIMITED

and 9873272801 Email - sardii@bankofbaroda.co.in

This is in reference to the E-auction notice Published on 01.11.2020 in Delhi NCR edition

Also, Please read the charges mentioned in

Other terms & Condition will remain same. **Dr. Amit Gupta**

NOTICE is hereby given to the General Public

ered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director at the address B-2 Wing 2 nd Floor Paryavaran Bhawan CGO Complex New Delhi-110003 within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company with a

E-AUCTION SALE NOTICE SEITZ INDIA PRIVATE LIMITED (IN LIQUIDATION) Regd. Off.: 147, New Manglapuri, M G Road, New Delhi - 110030

Sale of Assets owned by Seitz India Pvt. Ltd. (in Liquidation) forming part of Liquidation Estate of Seitz India Pvt. Ltd. in possession of the Liquidator, appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi Bench vide order dated 28.01.2020. The sale of properties will be done by the undersigned through the e-auction platform

Liquidator

months ended on 30th September, 2020. (Rs. In Lakhs except EPS data) Quarter ending Six months Quarter ending

Diluted: 0.23 -4.31

> Rahulinder Singh Sidhu (Director) DIN-00447452

IBBI/IPA-001/IP-P00222/2017-18/1042 Kashyap Motors India Private Limited Place: New Delhi (Under Liquidation)

DIRECTOR

(P.P.S. CHAUHAN)

Notice is hereby given to the General Public that

CORRIGENDUM

Date:16.11.2020 Place: Meerut

Srinagar 190001 (J&K) e-RFP Notice (e-NIT)

Tender Notice along with Complete tender document outlining

MFL INDIA LIMITED

(In Rs.)

Nalwa Sons Investments Limited

404317	Kishore Kumar Rekhecha	602204	61961875-61961889	15
	Old Equity Shares of Na	lwa Sons Inv	estments Limited	
	(Issued after 11.7.1	1999 and upto	16.9.2003):	

No(s).

Company Secretary

their respective registered addresses by post and electronically to those who have registered their

Members are hereby informed that in compliance with the provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as

Pursuant to the provision of Section 91 of Companies Act, 2013, the Registrar of Members and Share transfer Books of the Company will remain closed from Sunday, 6th December, 2020 to

> Meenu Sharma Company Secretary

New Delhi

टूटी सड़कों को देख भड़के विधायक, अधिकारियों को दिए जल्द ठीक करने के निर्देश

पृथला क्षेत्र की जर्जर सड़कों को तुरंत दुरुस्त करें अधिकारी : नयनपाल रावत

हरियाणा वेयरहाउस के चेयरमैन एवं पृथला के विधायक नयनपाल रावत आज गांव ततारपर से जटौला तक जाने वाली टूटी हुई सड़क को देखकर भड़क गए और उन्होंने तुरंत ही मौके पर अधिकारियों को फोन कर बुलाया और टूटी हुई सड़कों को दिखाया। रावत ने कहा कि इन ट्रटी सड़कों की वजह से लोगों को परेशानियां पेश आ रही है इसलिए उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए कि इन सड़कों को तुरंत दुरूस्त किया जाए। उन्होंने सख्त लहजे में अधिकारियों से कहा कि पृथला क्षेत्र में टूटी सड़कें किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली सभी सड़कों को बेहतर बनवाया



में सगमता हो सके। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में अधिकारियों की

ने बताया कि पृथला से प्याला तक जाने वाली सड़क काफी जर्जर अवस्था में है और इस को जल्द ही परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि कि जो सड़कें चलने लायक नहीं है उनको जल्द ही दुरुस्त किया जाए जिसको लेकर सभी सडकों के एस्टीमेट बनाकर भेज दिए गए हैं और पूरे हरियाणा में जिस तरीके से

हुए थे, अब उनको युद्ध स्तर पर शुरू करके पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मानसून का सीजन गुजर चुका है और त्यौहार भी निकल गए है इसलिए अब जल्द ही अधिकारियों की एक बैठक बुलाकर क्षेत्र की सभी टूटी सड़कों को नए सिरे से बनाने का खाका तैयार किया जाएगा ताकि क्षेत्र के लोगों को आवागमन में परेशानियां न हो।वह क्षेत्र के विकास में अपना पूरा योगदान दें और विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर उन्हें इसकी तुरंत जानकारी दें। इस मौके पर एक्सईएन पीडब्ल्यूडी पलवल नरेंद्र कमार, जेई पीडब्ल्यडी फरीदाबाद सुरेंद्र सिंह, जेई पीडब्ल्युडी फरीदाबाद महिपाल, लक्ष्मण तंवर एडवोकेट, ज्ञान कौशिक, एसडीओ, जेई आदि मौजूद थे।

हरियाणा

चित्रगुप्त पूजन से लेखनी, वाणी और विद्या का मिलता है वरदान : मेघना श्रीवास्तव

श्री चित्रगुप्त पूजन महोत्सव का आयोजन बड़े ही धूमधाम से कायस्थ महासभा, विनय नगर, फरीदाबाद में किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती मेघना श्रीवास्तव मौजूद रही वहीं अतिथि के रूप में स्वावलंबन ट्रस्ट के राष्ट्रीय महासचिव राघवेंद्र मिश्रा, स्वावलंबन ट्रस्ट लीगल सैल के अधिवक्ता आर.के. श्रीवास्तव

इस मौके पर श्रीमती मेघना श्रीवास्तव ने कहा कि चित्रगुप्त जी का जन्म ब्रह्मा जी के चित्त से हुआ था और इनका कार्य प्राणियों के कर्मों के हिसाब किताब रखना है। उन्होंने बताया कि मुख्य रूप से इनकी पूजा भाई दूज के दिन होती है, इनकी पूजा से लेखनी, वाणी और विद्या का वरदान मिलता है। उन्होंने कहा कि चित्रगुप्त जी का विवाह भगवान सूर्य की पुत्री यमी से हुआ था, इसलिए वह यमराज के बहनोई हैं, यमराज और यमी सूर्य की जुड़वा संतान हैं।

वैभव न्यूज ∎फरीदाबाद



कुमार, राजेश चन्द्र, सुनील वर्मा,

राजीव, राकेश वर्मा, अमन, नलिन

विलोचन कर्ण संजय श्रीवास्तव

सहित कायस्थ महासभा विनय नगर

बुजुर्ग मालिक की हत्या कर नहर में फेंकने

के सभी सम्मानित सदस्यों ने श्रद्धा भक्ति के साथ के साथ कार्यक्रम को सफल बनाया। उधर ईस्माईलपुर में भी श्री चित्रगुप्त समाज कल्याण संस्थान द्वारा चित्रगुप्त पूजनोत्सव मनाया गया, जिसमें मुख्य रूप से विशेश्वर लाल कर्ण, सतीश दत्ता, हीरा लाल दास, संजय कुमार श्रीवास्तव, दत्ता,प्रमोद कर्ण अतुल कुमार श्रीवास्तव, अभिषेक कर्ण आदि की उपस्थिति रही।

सीटें नहीं बढ़ाकर छात्रों से पढ़ने का अधिकार छीन रही है सरकार : कृष्ण अत्री

20 प्रतिशत सीट बढ़वाने के लिए एनएसयूआई ने सौंपा परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा को ज्ञापन

वैभव न्यूज ■फरीदाबाद

एनएसयुआई के बैनर तले आज छात्र-छात्राओं ने सभी कॉलेजों की स्नातक कक्षाओं में 20 प्रतिशत सीट बढवाने के परिवहन अनुपस्थिति में उनके भाई टिप्पर ज्ञापन एनएसयूआई हरियाणा के प्रदेश महासचिव कृष्ण अत्री के नेतृत्व में सौंपा गया। इस दौरान एनएसयूआई हरियाणा के प्रदेश महासचिव कृष्ण अत्री ने कहा

कि 20 प्रतिशत सीट बढवाने के लिए छात्र पिछले 15 दिनों से लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नही हो रही हैं। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद के साथ-साथ अन्य जिलों में भी सीट बढाने को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कृष्ण अत्री ने कहा कि सीट बढ़ाने की मांग को लेकर 2 नवंबर को एक प्रदर्शन किया गया था तथा जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के



हरियाणा मनोहरलाल खट्टर के नाम ज्ञापन

हुई तो 11 नवंबर को मैगपाई चौक पर प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री

कराया हैं।छात्र नेता महेश चौहान, काजल, प्रीति, अंशु, प्रिया, नितिन मित्तल, महेश शर्मा,

अरबाज खान, लोकेश राजपूत, अंकुश, मनीष, नरेंद्र सिंह साहिल कौशिक आदि मौजूद थे।

मनोहरलाल खट्टर और गृह मंत्री

अनिल विज का पुतला भी फूंका

था। कॉलेज प्रशासन से लेकर

खटखटाने के बाद जब छात्रों की

नहीं सुनी गई तो आज सत्ता रूढ़

पार्टी के परिवहन मंत्री मुलचंद

शर्मा को अपनी मांग से अवगत

घर सूरजकुंड जाकर देखा तो उसके मकान पर ताला लगा हुआ था आस पड़ोस में पूछने पर पता चला कि वह 20/25 दिन से गायब है। जिस पर पुलिस ने थाना सूरजकुंड में गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी थी। मामला जल्द सुलझाने के लिए ऋाइम ब्रांच डीएलएफ को सौंपा गया था। ऋाइम ब्रांच डीएलएफ ने गुरु वचन

के नौकर भरत उर्फ मोनू निवासी अल्मोड़ा उत्तराखंड हाल किराएदार सेहतपुर पल्ला से सख्ती के साथ पूछताछ की गई तो पता चला कि गुरु वचन के नौकर भरत ने अपने साथियों राहुल और दीपक निवासीगण जैतपुर दिल्ली के साथ मिलकर गुरु वचन क्रो दिनांक 29 अगस्त 2020 को

ने सूरजकुंड थाना को शिकायत दी थी कि उनका

साला गुरु वचन सिंह जो कि चार्मवुड विलेज

सूरजकुंड में रहता है। जिसका मोबाइल फोन काफी

दिनों से स्विच ऑफ आ रहा था जो कि मैंने उसके



अपहरण करके हत्या कर नाश को खुर्दपुर करने के लिए गंगा नहर अनूपशहर यूपी में फेंक दिया था। जिस उपरांत मुकदमे में हत्या और अपहरण की धाराओं को इजाद किया गया था। पूछताछ पर आरोपी नौकर भरत ने बताया कि उसने अपने मालिक गुरु वचन की हत्या प्रॉपर्टी के चलते की थी। आरोपी नौकर ने अपने साथी दीपक की कार की नंबर प्लेट बदलकर मृतक गुरु वचन का अपहरण कर साफी से गला घोटकर उसकी हत्या कर नाश को गंगा नदी अनुपशहर यूपी इलाके में ले जा कर फेंक दी थी। हत्या उपरांत आरोपी नौकर ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रॉपर्टी के कागजात अपने मालिक गुरु वचन के घर से चोरी कर किसी व्यक्ति को नकली गुरु वचन बनाकर उत्तर प्रदेश से जीपीए एवं अन्य दस्तावेज तैयार

हाइटेंशन तार की चपेट में आने से हुई 21 वर्षीय युवती की मौत

एनआइटी के पांच नंबर एच ब्लाक में रहने वाली 21 वर्षीय शीला उर्फ शीन की मंगलवार को हाईटेंशन तार की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे से गुस्साए स्वजनों और पड़ोसियों ने एनआइटी पांच नंबर मार्केट में जाम लगा दिया। सूचना गई और जाम लगाने वाले लोगों को समझाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं माने। लोगों में रिहायशी इलाके के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन तारों को लेकर रोष था। कई बार बिजली निगम के अधिकारियों से इसकी शिकायत की जा चुकी थी लेकिन समाधान नहीं हुआ है। स्वजनों के मृताबिक शीन के माता-पिता नहीं थे। वह यहां चाचा-चाची के पास रह रही थी। वह सीए कर रही थी। मंगलवार को वह कंबल सुखाने घर की छत पर गई। वहां ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन तारों की चपेट में आकर झुलस गई।लोगों ने बिजली विभाग से इस हाईटेंशन तार को हटाने के लिए कई



बार विभाग को लेटर लिख चुकी है में काम नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये हादसा हो गया। यदि विभाग इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस लाइन को शिफ्ट कर देता तो हादसा नहीं होता। बता दें कुछ दिन पहले भी एनआइटी-5 के एम ब्लाक में दोस्त के घर की छत पर मोबाइल से बात करते वक्त 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक रोहित श्री धार्मिक लीला कमिटी से जुड़कर रामलीला में सीता की भूमिका निभाते थे। मृतक रोहित के स्वजनों ने भी बिजली विभाग पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया

मेट्रो अस्पताल में मिलेंगी लोगों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं : डॉ. पुरुषोत्तम लाल

वैभव न्यूज ∎फरीदाबाद

विश्व प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ पद्म भूषण व पद्म विभूषण से विभूषित और डा.बीसी राय राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित मेट्रो अस्पताल समूह के चेयरमैन डॉ. पुरूषोत्तम लाल ने फरीदाबाद मेट्टो अस्पताल को पूर्ण रूप से टेकओवर करने के बाद कहा कि अब फरीदाबाद के लोगों को हृदय एवं उससे संबंधित रोगों के इलाज के लिए दूरदराज नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें उचित दरों पर मेट्रो अस्पताल में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई जाएगी। डा. लाल ने बताया कि जल्द ही मेट्रो कैंसर सेंटर का निर्माण भी शीघ्र पूरा हो जाएगा, जिसमें फरीदाबाद व आसपास के क्षेत्रों के कैंसर पीड़ित मरीजों को विश्वस्तरीय कैंसर से संबंधित चिकित्सा सेवाएं मुहैया करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मेट्रो अस्पताल समूह के देशभर में 12 अस्पताल मरीजों की सेवा में समर्पित है और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उचित दामों पर देने के लिए कृतसंकल्पित है। मेट्टो समूह का पहला अस्पताल मेट्रो हृदय संस्थान नोएडा में



1997 में स्थापित किया गया था। पदम भूषण डा. पुरूषोत्तम लाल ने मंगलवार को सेक्टर-16ए स्थित अस्पताल परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मेट्रो अस्पताल एवं हृदय संस्थान फरीदाबाद का एक आधुनिक एवं अग्रिम अस्पताल है, जहां मरीजों को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाई

वहीं उन्होंने कोरोना महामारी के इस दौर में लोगों से मास्क लगाने, सेनिटाईजर का प्रयोग करने तथा सोशल डिस्टेसिंग की सख्ती से पालना करने की भी अपील की। डा. पुरूषोत्तम लाल ने चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि आज व्यस्त जीवन शैली में हम जीवन के मूलभूत सिद्धांतों को भूल धार्मिक संगठनों के साथ मिलकर इन बीमारियों की रोकथाम की जागरूकता को बढ़ाएं ताकि एक स्वस्थ्य समाज का निर्माण

गए है, जिसके फलस्वरूप हृदय रोग, कैंसर, डायबिटीज, मोटापा एवं अन्य नॉन कम्यूनिकेबल बीमारियां बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयत्न रहेगा कि हम फरीदाबाद की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस, इंडस्ट्रीज एसो. स्कूल, सीनियर सिटीजनस, बार एसो., मार्किट एसो., गुरूद्वारा एवं अन्य सामाजिक एवं

समारोह 29 नवंबर को हिसार के पुराने राजकीय कॉलेज मैदान में आयोजित किया जाएगा अभिनंदन समारोह

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की है बीसी-ए वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने की सोच : रणबीर गंगवा

हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने कहा कि विधानसभा के पिछले सत्र में बीसी-ए वर्ग के लोगों को पंचायती राज चुनावों में आठ प्रतिशत आरक्षण देने का कानून पारित किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह सौगात बीसी-ए वर्ग के उन लोगों को दी है जो छोटी मशीनें लगाकर, नाई की दुकान जैसे कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि समाज के लोगों को यह सौगात देने पर 29 नवंबर को हिसार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का अभिनंदन समारोह आयोजित किया जाएगा। वह मंगलवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पिछड़ा वर्ग समाज के प्रतिनिधियों को संबोधित करने के उपरांत पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने कहा कि



बीसी-ए वर्ग में शामिल इन जातियों के लोगों के लिए पंचायती राज संस्थाओं में यह आठ प्रतिशत आरक्षण वरदान साबित होगा। समाज के लोगों को राजनीति में आगे आने का मौका मिलेगा और पंचायती राज संस्थाओं में उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस

आरक्षण के तहत प्रत्येक जिला में जिला परिषद में कम से कम दो सदस्य निर्वाचित होंगे और ब्लॉक समिति में भी प्रतिनिधत्व बढ़ेगा। गांवों में सरपंचों के पदों पर भी बीसी-ए वर्ग के लोगों को बड़ी संक्रया में प्रतिनिधित्व मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 10 जिले ऐसे

हैं जहां जनसंख्या कम है तो वहां दो सीटें निश्चित तौर पर बीसी-ए वर्ग के लोगों को जिला परिषद में मिलेंगी। इससे पिछडा वर्ग को कम से कम 11 से 12 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बीसी-ए वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने की सोच

को हिसार के पुराना राजकीय कालेज मैदान मे उनका अभिनंदन समारोह आयोजित करेंगे। वह स्वयं जाकर समाज के लोगों को इस समारोह में शिरकत करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। पत्रकारों से सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आज तक किसी भी सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लोगों के हितों का ध्यान नहीं रखा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में आज प्रदेश में जहां सभी वर्गों को साथ लेकर कार्य हो रहे हैं। इस अवसर पर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश सचिव रामेश्वर सिंह प्रजापित, एडवोकेट आरसी गोयल, धर्मवीर, चंद्रपाल, कृष्णपाल आर्य, जीवन लाल आर्य, रामशरण बडख़ल, नंदिकशोर कंडेरा, रामस्वरूप सैनी, किरण पाल सैनी और नानक चंद सिंदत काफी संख्या में लोग मौजूद थे।

है। ऐसे में समाज के लोग 29 नवंबर

(Formerly Known as Sabrimala Leasing and Holdings Ltd.)

- 011-47479723. Email - cs@sabrimala.co.in. Website-

NOTICE OF 36TH ANNUAL GENERAL MEETING,

REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE A. NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting of the members of the compan will be held on Tuesday, December 15, 2020 at 11:00 a.m at the registered office of the company situated at 205, Aggarwal Corporate Heights, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi-110034. Physical copies of the Notice of the Meeting including the attendance slip and the Proxy form setting out the ordinary businesses to be transacted at the Meeting together with the Audited Financial Statements and Consolidated Audited Financial Statements for the year ended 31st March, 2020, Auditor's Report and Director's Report thereon have been sent to the members who have not registered their email id with the Company/ Company's Registrars & Transfer Agents to their respective registered addresses by post and electronically to those who have registered their

Members are hereby informed that the Notice of the Meeting and the aforesaid documents are available at the Company's website (www.sabrimala.co.in) and copies of the said documents are also available for inspection at the registered office of the company on all working days, during business hours up to the date of the Meeting. A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote on a poll instead of himself and the Proxy need not be a member of the Company. The instrument appointing Proxy to be valid should be deposited at the registered office of the Company not later than 48 hours before the commencement of

Place: New Delhi

Members are hereby informed that in compliance with the provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 as amended and Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obliga tions and Disclosure Requirements) 2015, the Company is providing its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the said meeting through remote e-voting apart from the usual mode of voting at the Meeting through ballot papers. The ompany has engaged the services of Central Depository Services Limited ("CDSL") as the agency o provide e-voting facility. The communication relating to e-voting inter alia containing User ID and password along with a copy of the Notice convening the Meeting, Attendance Slip and Proxy Form has been dispatched/emailed, as the case may be, to all the Members. This communication and the Notice of the Meeting are available on the website of the Company at www.sabrimala.co.in and on the website of CDSL at www.cdslindia.com. The remote e-voting facility shall commence on Friday 11th December, 2020 from 09:00 a.m (IST) and ends on Monday 14th December, 2020 at 05:00 pm (IST). The remote e-voting will not be allowed beyond the said date and time. A person whose name appears in the register of Members/ Beneficial Owners as on the Cut off Date i.e. Tuesday 8th December, 2020 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the Meeting. Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as of the Cut off Date i.e. Tuesday 8th December, 2020, may obtain the User ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the Meeting which is available on the Company's Website and CDSL's website. If the member is already registered with CDSL for e-voting then he can use his existing user ID and password for casting the vote through remote e-voting. The members who cast their vote through remote evoting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again at the meeting. Any member, who is entitled to vote but has not exercised his/her right to vote by Remote e-voting. may vote at the meeting through physical ballot for all businesses specified in the Notice. Ballot papers has been mailed to you with Notice of the Meeting and will also be provided to the member at the Venue of the Meeting to cast their votes. C. BOOK CLOSURE

Pursuant to the provision of Section 91 of Companies Act, 2013, the Registrar of Members and Share transfer Books of the Company will remain closed from Sunday, 6th December, 2020 to Monday, 14th December, 2020 (both days inclusive) for the purpose of ensuing Annual General

In case of any queries/grievances relating to voting by electronic means, the Members/Beneficial Owners may contact at the below mentioned address: Mr. Mehboob Lakhani, Assistant Manager, Central Depository Services (India) Limited, 17th Floor, P J Towers, Dalal Street Fort, Mumbai-400001, Phone- 1800 200 5533, Email: helpdesk.evoting@cdslindia.com

For Sabrimala Industries India Limited

Meenu Sharma

Date: November 17, 2020 Company Secretary